

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 478]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2025 — ज्येष्ठ 16, शक 1947

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 5 जून 2025

अधिसूचना

क्रमांक ESTB-1/873/2025-HEALTH SECTION-2.— यतः राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक एफ 25-15/2009/नौ/55, दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, को छत्तीसगढ़ राज्य के लिये आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के रूप में नियुक्त किया है तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क. ई-1-01/2025/एक-2, दिनांक 19-04-2025 द्वारा श्री दीपक कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. को आगामी आदेश तक नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा है।

अतएव, राज्य सरकार, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा की ओर से, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (क. 34 सन् 2006) की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विभागीय अधिसूचना क. एफ 1-2/2019/17-दो, दिनांक 08 नवंबर, 2024 को अधितिष्ठित करते हुए, एतद्वारा, अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और खाद्य विश्लेषक की नियुक्ति की शक्ति को छोड़कर, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा के कार्यों के निष्पादन एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिये, उसकी शक्तियों को, श्री दीपक कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ को आगामी आदेश तक प्रत्यायोजित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (2) के अंतर्गत किये गये कार्यों की मासिक रिपोर्ट, श्री दीपक कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 5 जून 2025

क्रमांक ESTB-1/873/2025-HEALTH SECTION-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5-6-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 5th June 2025

NOTIFICATION

No. ESTB-1/873/2025-HEALTH SECTION-2.— Whereas, the State Government has appointed Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Health and Family Welfare as Commissioner, Food Safety for the State of Chhattisgarh by Notification No. F 25-15/2009/IX/55, dated 10th October, 2014 and assigned Charge of Controller, Food and Drugs Administration Chhattisgarh to Shri Deepak Kumar Agrawal, IAS till further order by Order No. E-1-01/2025/One-2, dated 19-04-2025 of Government of Chhattisgarh, General Administration Department;

Now therefore, the State Government on behalf of the Commissioner, Food Safety, in exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 30 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (No. 34 of 2006) and in supersession of Department's Notification No. F 1-2/2019/17-Two, dated 08 November, 2024, for carrying out the function and performing the duties of Commissioner, Food Safety, Chhattisgarh, except the power to appoint Designated Officer, Food Safety Officer and Food Analyst under sub-section (2) of Section 30 of the said, hereby, delegates his powers to Shri Deepak Kumar Agrawal, IAS, Controller, Food and Drugs Administration, Chhattisgarh, till further order, monthly report of the works done under sub- section (2) of Section 30 of the said Act shall be compulsorily submitted to the Commissioner, Food Safety by Shri Deepak Kumar Agrawal, IAS, Controller, Food and Drugs Administration.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMIT KATARIYA, Secretary.